

final replies in respect of Chapter-V of:—

- (a) Twentieth Report of the Committee on Public Undertakings (1992-93) on action taken by Government on the recommendations contained in their Fifty-Sixth Report (1988-89) on OU and Natural Gas Commission—Undue Benefit of Rs. 5.10 crores to a contractor.
- (b) Thirty-first Report of the Committee on Public Undertakings (1993-94) on action taken by Government on the recommendations contained in their Nineteenth Report (1992-93) on Industrial Development Bank of India.

बाद्य, नागरिक प्रति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन और उससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

REPORT AND MINUTES OF THE STANDING COMMITTEES ON COMMUNICATIONS

SHRI M. A. BABY (Kerala): I lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Tenth Report of the Standing Committee on Communications on National Centre of Films for Children and Young People relating to the Ministry of Information and Broadcasting and the Minutes of the Sitzings of the Committee relating thereto.

REPORTS AND MINUTES OF THE STANDING COMMITTEE ON LABOUR AND WELFARE

SHRI GUNDAPPA KORWAR (Karnataka): Madam, I beg to lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following Report of the Standing Committee on Labour and Welfare and Minutes of the Sitzings of the Committee relating thereto:—

1. Sixth Report on 'The Workmen's Compensation (Amendment) Bill, 1994'.
2. Seventh Report on the 'Ministry of Labour-Welfare of Beedi Workers'.
3. Eighth Report on the 'Wakf Bill, 1993*.

RE. LIVE TELECASTING OF THE PROCEEDINGS OF BOTH THE HOUSES

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): Madam, through you I would like to invite the attention of the Minister of Information and Broadcasting. We are all aware that facilities have been made for live telecasting of the proceedings of both the Houses within a 20-kilometre radius of this House. I would like to draw your attention to the news item that appeared in the *Times of India* on the 17th and in the *Pioneer* today; which speculatively insinuated that behind this decision to telecast the proceedings, it was the Vice-President who desired that he should be able to...

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Chairman.

SHRI S. JAIPAL REDDY: That the hon. Chairman desired that these proceedings should be seen by him from his home also. To the best of my knowledge, the Chairman of the House was not at all enthusiastic about this facility. I think these two newspapers were not only misled but also debriefed. I would like the Minister of Information and Broadcasting to clarify on this matter ... (Interruptions) ...

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): This is a very insulting, very damaging report. It is not a clarification alone in this House. This House must express our resentment about the report.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Exactly. That is why I have permitted him to raise it and, as the Minister is here, he should explain it. We deplore such kind of reporting in the newspapers and such baseless news should not appear about Mr. Chairman.

REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON URBAN AND RURAL DEVELOPMENT

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): 'अवाहुर रोजगार योजना'—ग्रामीण विकास मंत्रालय के संबंध में ग्रहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन और तत्संबंधी समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

REPORT AND MINUTES OF THE STANDING COMMITTEE ON FOOD CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): मैं बाद्य मंत्रालय संबंधी समिति (दसवीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन—वार्षिक प्रतिवेदन (1992-93) में अंतर्विष्ट सिफारशों पर सरकार बाद्य की गई कार्यवाही के संबंध में

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): It is a privilege issue.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes. If anybody wants to move a privilege motion, that is a matter we will take care of later. But just now the Minister should say something about it.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): Madam Deputy Chairman, the hon. Member, Mr. Jaipal Reddy, is very right that at no time either the Vice-President or the Chairman of the Rajya Sabha had addressed or sent any message...

SHRI G. SWAMINATHAN (Tamil Nadu): Point of order. Not Vice-President or Chairman of Rajya Sabha but Vice-President and Chairman of Lok Sabha.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: It is all a matter of semantics.

SHRI K. P. SINGH DEO: either to the Ministry of Information and Broadcasting or to the Doordarshan for having any facility at his residence. Actually, what happened was, right from October 1993, certain correspondence has been going on between the Doordarshan authorities and the Lok Sabha Secretariat regarding the CCTV which is already there, which had been supplied by the ECIL, whether live telecasting, apart from the Question Hour, would be possible. While these things were going on, a lot of exercise was done by the Doordarshan authorities how to live telecast Parliamentary proceedings to at least 25 kilometres around Delhi and then to extend it to the whole country. I do not know how it has come out in the press because there is no way I can prevent the press, or if any such unsubstantiated or imaginative article appears, there is nothing the Government can do because the freedom of the press is involved. ... (Interruptions) ...

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): You should have denied it.

... (Interruptions) ...

SHRI K. P. SINGH DEO: I do not need to deny it.

But I would like to reiterate, Madam, that the correspondence has been between the Doordarshan authorities and the Lok Sabha Secretariat. At no time has the Chairman or a Vice-Chairman or any one else from the Rajya Sabha Secretariat made any correspondence with or sent any message or any notice to the Ministry of I. & B. or to Doordarshan.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Well, it is highly objectionable that such a news

which has no basis appeared in the newspapers, especially against the Chairman of our August House. If anybody wants to move a privilege motion, fine, it is up to you. I will see what can be done about it. ... (Interruptions) ...

Just a minute. *rg V3 <jffr £tf "frfaq

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Madam. I can understand the difficulty of the Minister that before giving this information to Rajya Sabha it was difficult for him to write to that newspaper. Now, after having said this, will he write a strong letter to the newspaper so that it can understand that the Ministry also has taken objection to this kind of news which has been given in the Press?

THE DEPUTY CHAIRMAN: You see, the Ministry is not above Rajya Sabha. Mr. Jagesh Desai, Parliament is above any Ministry.

SHRI JAGESH DESAI: I fully agree with you, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just a second. The Members of this August House have deplored such a thing, and the Minister has expressed his view. I think, a decision taken by a higher body cannot be overruled by a lower body.

SHRI JAGESH DESAI: Madam, what I say is that now the Minister should write a letter to the newspaper.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He could have done it even before.

मिरी साहब को कुछ

कहना है।

विपक्ष के नेता (श्री सिकंदर बख्त) : सदर साहिब, जयपाल रेड्डी साहब ने जो...

شری سکندر بخت :- صدر صاحب
جے پال ریڈی صاحب نے جو...

उपसभापति : आपको किस बारे में कहना है ?

श्री सिकंदर बख्त : जयपाल रेड्डी साहब ने जो राज्य सभा के बारे में या चेयरमैन साहब के बारे में कहा है, मैं अपने आपको उसके साथ एंजोसिएट करता हूँ और सख्त गुस्से का और नाराजगी का इजहार करता हूँ कि आखिर राज्य सभा के साथ किस तरीके का मुलक होता है ? चेयरमैन साहब के मुता-ल्लिक जो कुछ लिखा गया है, उसमें सच्चाई कहां से मिली है, किसके जरिए से मिली है, बहुत ही अफ-सोसनाक है। यह तमाम सिलसिला जो आया है, किसी ढंग से भी आया हो लेकिन अफसोसनाक है, बदनाम है और इस तरीके से चेयरमैन साहब के बारे

††† Transliteration in Arabic Script.

में एक्सप्रेशनस कास्ट करना सख्त-तरीन ऐतराज है और सख्त-तरीन गुस्ता है, इस पर।

श्री स्कन्दर बजत :- जी पाल रिडि
 صاحب نے جو راجیہ سبھا کے بارے میں
 یا چیزیں صاحب کے بارے میں کہا ہے
 میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایسوی ایٹ
 کرتا ہوں اور سخت غصہ کا اور ناراضی
 کا اظہار کرتا ہوں کہ آخر راجیہ سبھا کے ساتھ
 کس طریقہ کا سلوک ہوتا ہے۔ چیزیں صاحب
 کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں سچائی
 کہاں سے ملی ہے کس کے ذریعہ سے ملی
 ہے بہت ہی افسوس ناک ہے۔ یہ تمام
 سلسلہ جو آیا ہے کس ڈھنگ سے بھی آیا ہو
 لیکن افسوس ناک ہے۔ درد ناک ہے اور
 اس طریقہ سے چیزیں صاحب کے بارے میں
 ایکسپریشنس کا سٹ کرنا سخت ترین اعتراض
 ہے اور سخت ترین غصہ ہے اس پر۔

THE DEPUTY CHAIRMAN: From the chair I fully associate with the sentiments that you, Jaipal ji and the entire House from all the sides have expressed.

SHRI JAGESH DESAI: Madam, this should be referred to the Press Council.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, you can refer it to anybody anywhere. میری ساہب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟

श्री जगदीश प्रसाद माथूर (उत्तर प्रदेश): सदन ने ही उसकी निन्दा कर दी है, यह पर्याप्त है। इतना इम्पोर्टन्स देने की आवश्यकता नहीं है कि प्रिविलेज करो।

RE. LAYING THE REVISED ACTION TAKEN REPORT ON THE TABLE

श्री राजनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश): मैडम, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर....

† [] Transliteration in Arabic Script.

उपसभापति : आज तो केवल क्लैरीफिकेशन है।

श्री राजनाथ सिंह : नहीं मैडम, केवल व्यवस्था का प्रश्न, प्वाइंट ऑफ आर्डर रोज करना चाहता हूँ। मुझे यह निवेदन करता था कि यह सरकार द्वितीय विश्वस्नीयता का संकट पैदा करती जा रही है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया था कि बाय दी ट्वेंटीएथ दिसम्बर, एक्शन टेकन रिपोर्ट, रिवाइज्ड एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है, सदन को प्रस्तुत कर दी जाएगी, टेबल कर दी जाएगी। आज 20 तारीख है लेकिन 20 तारीख को भी महोदया, कार्यसूची में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट आज प्रस्तुत कर दी जाएगी। प्रैस को रिवाइज्ड एक्शन टेकन रिपोर्ट के कॉन्टेन्ट्स की जानकारी मिल चुकी है।

उपसभापति : शुक्ला जी यहाँ हैं न, वह बताएंगे।

श्री राजनाथ सिंह : समाचार पत्रों में भी यह प्रकाशित हो चुका है, मैं आपको व्यवस्था चाहूँगा कि संसदीय कार्य मंत्री ने इस सदन को गुमराह करने का काम किया है।

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिम बंगाल) : सवाल यह है कि पार्लियामेंट से पहले कैबिनेट के डिपार्टमेंट प्रैस में चले जाते हैं...

श्री राजनाथ सिंह : अतः सरकार को निर्देशित करें कि आज के ही दिन, जैसा कि सदन को आश्वस्त किया गया था, रिवाइज्ड एक्शन टेकन रिपोर्ट इस सदन के पटल पर रखी जाए।

उपसभापति : शुक्ला जी, आप बोलिए।

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : कल जो प्रैस में कहा था, आज यहाँ कह दीजिए।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I don't know.

THE MINISTER OF PARLIAMEN-rARY AFFAIRS (SHRI VIDYACHA-RAN SHUKLA): Madam, first of all, I would like to join other Members in con-iemning the news item that has appeared. [It is highly objectionable, and we should take some action in this matter ... (Interruptions)]

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is also associating with it. I don't think we should have any objection to it.

श्री तिलोकी नाथ खुर्बेदी (उत्तर प्रदेश) : आप हम लोगों को तो कहती हैं कि वह आइटम खरम हो गया, अब इसका समय खत्म हो गया, यह सवाल खत्म हो गया। लेकिन क्या पार्लियामेंटरी एफियर्स मिनिस्टर का विशेष प्रिविलेज है कि जब वे चाहे खड़े होकर निवेदन कर सकते हैं और आप उनको अलाऊ करें। जो आप फिर उनको कह रही हैं कि... (व्यवधान)...